



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276]
No. 1276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2007/आश्विन 27, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2007/ASVINA 27, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1785(अ).—केन्द्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवम्बर-दिसम्बर, 2007 को खेले जाने वाली क्रिकेट की भारत-पाक टेस्ट शृंखला राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 16/8/2006-बीपी एंड एल जिल्द-III]
जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION
AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2007

S.O. 1785(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Sub-section (1) of Section 2 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), the Central Government hereby notifies the India-Pak Test Series of cricket to be played in November-December, 2007, as a sporting event of national importance.

[F.No. 16/8/2006-BP & L Vol. III]
ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.